

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(जुलाई 2017)

वेतन के लिए प्लेसमेटकर्मि नगर निगम के जल शाखा के 113 प्लेसमेटकर्मियों का पिछले पांच माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाने के मुद्दे पर आज नगर निगम के एमआईसी की बैठक में बवाल मचा रहा महापौर आयुक्त व सदस्यों के बीच करीब आधे घंटे तक चले चर्चाओं के बावजूद लंबित वेतन के लिए कोई नतीजा नहीं निकल सका जल शाखा प्रभारी हेमंत सिन्हा इस मुद्दे को लेकर अधिकारी कर्मचारियों पर बिफर पड़े तथा सीधे सीधे आरोप लगाया कि अनुबंध समाप्त होने के बावजूद ठेकेदार को लाभ पहुंचाने प्लेसमेटकर्मियों के लिए नये निविदा को लटका कर रखा गया है

कब्जा जमाए ख ठेला व होर्डिंग्स हटाए गए

प्रभारी आयुक्त के निर्देश पर निगम की उडनदस्ता टीम की कारवाई शहर के प्रमुख मार्गों व चौराहों में अतिक्रमण कर जाम व दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले ठेला संचालकों व बड़े होर्डिंग्स व पोस्टर पर सख्त होते हुए नगर निगम प्रभारी आयुक्त सुर्यकिरण तिवारी ने उडनदस्ता टीम को कार्यवाही करने निर्देश दिये हैं प्रभारी आयुक्त के निर्देश पर आज निगम अमले ने गांधी चौक में डाटा सेन्टर के समीप बड़ा हिस्सा घेर संचालित हो रहे चाय गुम्टी को हटाने की कार्यवाही की इसे अलावा गांधी चौक अम्बेडकर चौक घड़ी चौक सहित अन्य चौक चौराहों पर लगे होर्डिंग्स को हटाने की कार्यवाही की गई

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने संपर्क करें.

कार्यालय का पता – नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी
अम्बिकापुर (छ.ग.)